

2017  
**POWER SYSTEM – I**

निर्धारित समय : तीन घंटे]

Time allowed : Three Hours]

[अधिकतम अंक : 70

[Maximum Marks : 70

नोट : (i) प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं पाँच के उत्तर दीजिये।

Note : Question No. 1 is compulsory, answer any **FIVE** questions from the remaining.

(ii) प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिये।

Solve all parts of a question consecutively together.

(iii) प्रत्येक प्रश्न को नये पृष्ठ से प्रारम्भ कीजिये।

Start each question on fresh page.

(iv) दोनों भाषाओं में अन्तर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है।

Only English version is valid in case of difference in both the languages.

1. (i) वैद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं ? उनके नाम लिखिए।

What are the main source of electrical energy ? Write their names.

- (ii) वायु पुनःतापक का क्या कार्य है ?

What is the function of air preheater ?

- (iii) पीक लोड एवं बेस लोड प्लांट को समझाइये।

Explain peak load and base load plant.

- (iv) मंदक की नाभिकीय रियेक्टर में क्या आवश्यकता है ?

What is the necessity of moderator in a nuclear reactor ?

- (v) सौर ऊर्जा के मुख्य अनुप्रयोग क्या हैं ?

What are main applications of solar energy ?

(2×5)

2. (i) विभिन्न प्रकार के शीतलक बुर्ज के नाम लिखिये तथा सचित्र वर्णन कीजिए।  
Write the names of different types of cooling towers and describe with diagram.  
(ii) थर्मल पावर प्लांट में गर्म धुएँ के प्रवाह को सचित्र समझाइये।  
Draw and explain flue gas flow diagram in thermal power plant. (6×2)
3. (i) प्रोपेलर टरबाइन का कार्य सिद्धांत एवं बनावट विशेषताओं को समझाइये।  
Explain the working principle and constructional features of propeller turbine.  
(ii) जल विद्युत शक्ति गृह का ले-आउट बनाइये तथा विभिन्न घटकों के कार्य बताइये।  
Draw layout of hydel power plant and write function of various components. (6×2)
4. (i) सचित्र दाबानुकूलित जल रियेक्टर की कार्यविधि का वर्णन कीजिये।  
Describe working of a pressurised water reactor with diagram.  
(ii) न्यूक्लियर रियेक्टर के मुख्य भागों को समझाइये।  
Discuss the main parts of nuclear reactor. (6×2)
5. (i) डीजल शक्ति गृह के लाभ तथा हानियाँ लिखिये।  
Write advantages and disadvantages of a diesel power plant.  
(ii) गैस टरबाइन संयंत्र की कार्यप्रणाली व सिद्धांत समझाइये।  
Explain principle and operation of gas turbine plant. (6×2)
6. (i) सौर तालाब तापीय संयंत्र की कार्यप्रणाली सचित्र समझाइये।  
Explain the working of a solar pond thermal plant with diagram.  
(ii) क्षैतिज पवन मशीन की बनावट व कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिये।  
Describe the construction and working of horizontal wind machine. (6×2)
7. (i) दीनबन्धु बायो गैस संयंत्र की कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिये।  
Describe the working of Deen Bandhu Bio-gas plant with diagram.  
(ii) खुला चक्र सागरीय ऊर्जा संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिये।  
Describe open cycle ocean energy plant with diagram. (6×2)
8. किन्हीं दो पर संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखिये :  
Write short notes on any two :  
(i) राख निस्तारण विधियाँ  
Ash-disposal methods  
(ii) पम्पड स्टोरेज जल विद्युत गृह  
Pumped storage hydro plant  
(iii) सौर बक यंत्र  
Solar still (6×2)